



भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड

सैक्टर 19 बी, चण्डीगढ़-160019



प्रेस विज्ञप्ति दिनांक : 23.02.2012

विषय: इन्टर सेंट्रल पावर सैक्टर यूनिट क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारम्भ -
बीबीएमबी प्रथम मैच जीता



श्री ए.बी. अग्रवाल, अध्यक्ष, बीबीएमबी - क्रिकेट स्टेडियम सैक्टर 16, चण्डीगढ़ में बीबीएमबी द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के तत्वावधान में इन्टर सेंट्रल पावर सैक्टर यूनिट क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारम्भ तथा एकत्रित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए ।

चण्डीगढ़ : श्री ए.बी. अग्रवाल, अध्यक्ष, बीबीएमबी ने आज यहां क्रिकेट स्टेडियम सैक्टर 16 में ऑल इण्डिया पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के तत्वावधान में इन्टर सेंट्रल पावर सैक्टर यूनिट क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर श्री अशोक थापर, सदस्य (विद्युत), श्री एस. एल. अग्रवाल, सदस्य (सिंचाई) तथा बीबीएमबी के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

इस लीग-कम-नॉक आऊट टूर्नामेंट में निम्न आठ टीमों में भाग ले रही हैं :-

1. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार (MOP)
2. भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड (BBMB)
3. नैशनल हाईड्रो पावर कारपोरेशन (NHPC)
4. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA)

5. सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (SJVN)
6. पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (PGCIL)
7. टेहरी हाईड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन (THDC)
8. नार्थ इस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (NEEPCO)

मुख्य अतिथि, अध्यक्ष, बीबीएमबी ने अपने सम्बोधन में खिलाड़ियों को खेलों में बढ़चढ़ कर भाग लेने के लिए उत्साहित किया। उन्होंने भाईचारे और आपसी सम्बन्धों को सुधारने में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताया। तत्पश्चात् उन्होंने सभी टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया।

इससे पूर्व श्री एच. के. गुप्ता, प्रेज़िडेंट, केन्द्रीय खेलकूद समिति, बीबीएमबी ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया तथा बीबीएमबी में खेल-कूद गतिविधियों पर प्रकाश डाला। सभी टीमों ने बैंड के साथ मार्च-पास्ट किया। तत्पश्चात् खिलाड़ियों ने सद्भावना शपथ ग्रहण की।

आज क्रिकेट स्टेडियम, सैक्टर 16 में 20-20 overs का पहला मैच BBMB Vs MOP तथा Guru Nanak Public School (GNPS), Sector 36 में NEEPCO Vs THDC खेला गया। बीबीएमबी ने यह मैच 11 overs 3 balls में दो wkt पर 107 run बनाकर आठ wkt से जीता जबकि MOP ने 20 overs में 6 wkt पर 105 run ही बनाए। जबकि GNPS में NEEPCO ने चार wkt खो कर 181 रन बनाकर यह मैच जीता। THDC के सभी खिलाड़ी 18.2 overs में केवल 108 रन बना पाए। बीबीएमबी द्वारा अपने भागीदार राज्यों (पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश) को 24 पैसे प्रति यूनिट की दर से सस्ती बिजली की आपूर्ति की जा रही है, जो इन राज्यों की कृषि सबसिडी का मुख्य कारक है। चालू वर्ष में बीबीएमबी बिजली घरों का प्रदर्शन शानदार रहा है। इस वर्ष के पूर्वाहर्ष अर्थात् अप्रैल-सितम्बर, 2011 की अवधि के दौरान बीबीएमबी ने 7169 मिलियन यूनिट का उत्पादन करते हुए दशक का सर्वोच्च विद्युत उत्पादन हासिल किया। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन को जारी करते हुए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सम्पूर्ण वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारित 10023 मिलियन यूनिट का लक्ष्य मात्र 9 महीनों में ही पूरा कर लिया गया। यद्यपि अनुकूल वर्षा ने इस उपलब्धि में सहयोगी भूमिका निभाई। तथापि बिजली घरों के सर्वोत्तम रख रखाव, जलाशय प्रबन्धन और कामगारों को प्रेरित करने के लिए प्रबन्धन द्वारा किये गये सतत प्रयासों ने इस प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस बढ़त से भागीदार राज्यों को बड़ी राहत मिली है जो मंहगी विद्युत खरीदने के कारण अपनी विद्युत यूटिलिटीयों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। भागीदार राज्यों द्वारा बिजली की खरीद की संतुलित दर 3.75 रुपये प्रति यूनिट मानते हुए भी शेष तीन महीनों में 1950 मिलियन यूनिट के सम्भावित अतिरिक्त उत्पादन से राज्यों को लगभग 700 करोड़ रुपये की राहत मिल सकेगी।

इस प्रदर्शन से देश में हाल ही में कोयले की कमी के कारण क्षेत्र में विद्युत उत्पादन में आई बाधा से निपटने में दूरगामी सहायता मिलेगी।

FIXTURES OF CPSU CRICKET TOURNAMANT (23rd Feb to 27th Feb. 2012)

POOL – A	POOL – B
N E E P C O	B B M B
S J V N	C E A
T H D C	M O P
N H P C	P O W E R G R I D

Sr. No.	Date	Time	Fixture	Venue
1	23.02.2012	09:30 AM	BBMB Vs MOP	Cricket Stadium – 16
2	23.02.2012	01:30 PM	CEA Vs Power Grid	Cricket Stadium – 16
3	23.02.2012	09:30 AM	NEEPCO Vs THDC	G N P S – 36
4	23.02.2012	01:30 PM	SJVN Vs NHPC	G N P S – 36
5	24.02.2012	09:30 AM	NEEPCO Vs SJVN	DAV – 8
6	24.02.2012	01:30 PM	THDC Vs NHPC	DAV – 8
7	24.02.2012	09:30 AM	BBMB Vs Power Grid	G N P S – 36
8	24.02.2012	01:30 PM	MOP Vs CEA	G N P S – 36
9	25.02.2012	09:30 AM	NEEPCO Vs NHPC	DAV – 8
10	25.02.2012	01:30 PM	SJVN Vs THDC	DAV – 8
11	25.02.2012	09:30 AM	BBMB Vs CEA	G N P S – 36
12	25.02.2012	01:30 PM	Power Grid Vs MOP	G N P S – 36
13	26.02.2012	10:00 AM	Winner of Pool A Vs Runner of Pool – B	D A V – 8
14	26.02.2012	10:00 AM	Winner of Pool B Vs Runner of Pool – A	G N P S – 36
15	27.02.2012	10:00 AM	Final	Cricket Stadium - 16